



जनपद शामली पुलिस



--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 31.08.2021

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना क्षेत्रांतर्गत डेरा अजीजपुर में पिता की गैर इरादतन हत्या करने वाला हत्याभियुक्त पुत्र हिरासत में, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार बरामद:-

दिनांक 29.08.2021 को रात्रि के समय थाना झिंझाना को डेरा अजीजपुर में एक व्यक्ति की हत्या करने की सूचना मिली। सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी कैराना एवं प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना मय फोर्स के घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी करते हुए मृतक की पहचान कराई गई। मृतक की पहचान कुलवन्त सिंह पुत्र बलकार निवासी डेरा अजीजपुर थाना झिंझाना जनपद शामली के रूप में हुई। मृतक के शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। हत्या के सम्बन्ध में मृतक की पत्नी दलजीत कौर द्वारा थाना झिंझाना पर तहरीर दाखिल कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया था। हिरासत में लिया अपचारी किशोर घटना कारित करने के बाद फरार हो गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटनास्थल का दौरा किया था जिसमें पिता की पुत्र द्वारा गैर इरादतन हत्या किए जाने की जानकारी प्रारंभिक छानबीन में हुई थी। उन्होंने प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना को अपचारी किशोर को शीघ्र हिरासत में लेने के आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

इसी क्रम में आज दिनांक 31.08.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे संगीन अपराधों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस की निरन्तर कार्यवाही में उक्त घटना में लिप्त अपचारी किशोर को गैर इरादतन हत्या में प्रयुक्त अवैध हथियार सहित हिरासत में लेने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिसके संबंध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- हिरासत में लिये गये अपचारी किशोर से पूछने पर जानकारी हुई है कि उसका पिता शराब पीने का आदी था। जिस कारण घर में काफी परेशानी होती थी। उसके मना करने पर भी वह नहीं मानता था। घटना वाले दिन भी उसका पिता शराब पी रहा था। उसने शराब पीने से अपने पिता को रोका तो वह उसे तमंचा दिखाने लगा। तमंचे को छीनने के लिए वह अपने पिता की तरफ झपटा और तमंचा छीनने का प्रयास किया। तमंचा लोडेड था। इस छीना झपटी में तमंचे से गोली चल गई, जो उसके पिता को लगी। जिससे उसकी मृत्यु हो गई।

बरामदगी का विवरण:-

1. गैर इरादतन हत्या में प्रयुक्त अवैध 01 तमंचा मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर।

हिरासत में लेने वाली टीम:-

1.उ0नि0 श्री अरुण कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.हे0का0 विकास थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.का0 सन्नी कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा मादक पदार्थ सहित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 200 ग्राम अवैध चरस बरामद ।

आज दिनांक 31.08.2021 पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को 200 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. मांगेराम पुत्र अमरनाथ निवासी खेडी जुनारदार थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध चरस 200 ग्राम।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2. का0 मोहित चिकारा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।



01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

आज दिनांक 31.08.2021 को थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 366/21 धारा 323,504,506, 308 में वांछित अभियुक्त प्रणव उर्फ किट्टू पुत्र स्व0 विकास निवासी नई बस्ती माजरा रोड़ शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

